



W.D. 28/11/24 दलजीत कुमार सिंह को नमस्कार BA 810230
1 कोठी की

प्रेम चन्द्र श्रीवास्तव
(स्टाम्प भेन्डर) मधुबनी
पा. नं०-११८/७०-७५

Supplementary Agreement of original Agreement No-04SBD/2021-22 for GST Claim

AGREEMENT Form:

Agreement.

This agreement, made the day of 2025 Between Executive Engineer R.W.D (W) Division, Madhubani (hereinafter called "employer" of the one part) and Daljeet Kumar Singh, At-Simri Goth, Po-Simri, PS-Rajnagar, Dist-Madhubani-847235 (hereinafter called "contractor" of the other part) Whereas the Employer is desirous that the Contractor execute Construction and maintenance of road & CD work from GST Claim T02 Suresh Paswan house to Paswan tol road under MMGSY (SC) head (hereinafter called "work") and the Employer has accepted the Bid by the Contractor for the Execution and completion of such works and the remedying of any defects therein at a cost of Rs. 02,18,988.00 (Rupees two lakhs eighteen thousand nine hundred eighty eight) only

3/11/24
Executive Engineer
Executive Engineer
R.W.D. (W) Division, Madhubani
Madhubani

Daljeet Kumar Singh.

ग्रामीण कार्य विभाग

बिहार, पटना

पत्रांक- RWD/GST CLAIM/2025-26/1721 - 4555 अन्तःपटना/दिनांक-22.09.2025

प्रेषक,

अभियंता, भा.प.प.

अपर मुख्य कार्यपालक

पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग,

कार्य अंचल-मधुबनी।

विषय : MMGSY-SC योजनान्तर्गत एकरारनामा संख्या-04/SBD/2021-22 पथ-
Construction of road & CD work T02 Suresh Paswan house to Paswan
tol road में जी.एस.टी. दावा की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग- कार्य प्रमंडल-मधुबनी का पत्रांक-128 अनु०, दिनांक-24.01.2025

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के माध्यम से विषयांकित पथ में GST अंतर राशि
रु 2,18,989/- का दावा की जाँच हेतु अभिलेख समर्पित किया गया है जिसके आधार पर
विभागीय GST परामर्शी फर्म M/s SKKSS & Co. द्वारा उक्त दावों की जाँच की गई तथा राशि
रु 2,18,988/- मात्र की राशि दावे के योग्य पाया गया है।

GST परामर्शी फर्म के प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय GST समिति की अनुशंसा एवं
परामर्शी के प्रतिवेदन निम्न शर्तों के साथ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है:-

- कार्यपालक अभियंता GST Claim के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेंगे कि संबंधित
योजनान्तर्गत GST Claim का भुगतान पूर्व में न हुआ हो।
- भुगतान से पूर्व State MIS पर भुगतान की राशि को अपलोड कर दिया गया है।
- जिस संवेदक को भुगतान किया जा रहा है, वह कालीसूची में नहीं है।
- संबंधित योजना में ATR लम्बित नहीं है।
- कार्यपालक अभियंता पूर्ण रूप से यह सुनिश्चित कर लेंगे कि GST Claim की अनुशंसित
राशि का भुगतान संबंधित संवेदक को संबंधित योजना में ही किया जा रहा है।
- एकरारनामा से अधिक राशि के भुगतान के लिए अतिरिक्त राशि का पूरक एकरारनामा कर
लिया गया है।

अनु०- यथोक्त।

विश्वासभाजन

अपर मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा

पटना/दिनांक- 22.09.2025

ज्ञापक- RWD/GST CLAIM/2025-26/1721 - 4555

प्रतिलिपि-कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-मधुबनी को सूचनार्थ।

अपर मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा

Executive Engineer

R.W.D. Works Division

Madhubani

Deenjeeet Kumar Singh



ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

GST Claim के निष्पादन हेतु ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा गठित समिति की दिनांक - 11.01.25 को आहूत बैठक की कार्यवाही

विषय :- MMGSY (Sc) योजनान्तर्गत Construction and maintenance of road & CD work T02 Suresh Paswan house to Paswan tol road एकरारनामा संख्या 4 (SBD)/21-22 में जी.एस.टी. दावा की स्वीकृति के संबंध में

प्रसंग :- कार्य प्रमंडल मधुबनी का पत्रांक 128 अनु० दिनांक 24.01.2025

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के आलोक में कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल मधुबनी द्वारा विषयांकित पथ में रु० 2,18,989/- की जी.एस.टी. अंतर राशि का दावा जाँच हेतु समर्पित किया गया है। विभागीय पत्रांक 43/2023-761, दिनांक 23.03.2023 के आलोक में विभागीय जी.एस.टी. Consultant M/s SKKSS & Co. द्वारा दावे की जाँच की गई तथा रु. 2,18,988/- मात्र की राशि के दावे के योग्य पाया गया है।

तदालोक में एकरारनामा 4 (SBD)/21-22 विषयांकित कार्य Construction and maintenance of road & CD work T02 Suresh Paswan house to Paswan tol road के लिए दावे की राशि रु. 2,18,988/- रुपये मात्र संवेदक श्री दलजीत सिंह को भुगतान की अनुशंसा की जाती है।



Shweta Singh
10/01/25
विभागीय GST
Consultant

10/01/25
सहायक वित्त प्रबंधक,
ब्रांडा

10/01/25
वित्त प्रबंधक, ब्रांडा

10/01/25
GST नोडल पदाधिकारी

Damiset Kumar Singh

10/01/25
Executive Engineer
R.W.D. Works Division
Madhubani

07.2025

To,
The Additional Chief Executive Officer,
Bihar Rural Road Development Agency
Rural Works Department
Government of Bihar.

Re. Submission of GST Impact Report of Sri Daljeet Kumar Singh vide Agreement No. 4 (SBD)/21-22

Ref: Our appointment as GST Consultant by Rural Works Department, vide agreement number BRRDA/01/GST Consultancy dated 24.02.2023 and EE, Madhubani RWD letter no.128 dated 24.01.2025

Respected Sir,

We are appointed to recommend payment of GST Impact by analysing claim of contractors as per Scope of Work.

GST Impact Summary		
Agreement No.	Type of Supply	GST Impact (in ₹)
4 (SBD)/21-22	Construction and maintenance of road & CD work T02 Suresh Paswan house to Paswan tol road	218,988 (Annexure-I)

DARIYAPUR GOLA ROAD,
NALA ROAD, PATNA - 800004

Executive Engineer
R.W.D. Works Division



Daljeet Kumar Singh.

That the GST Impact calculation is made on the following premise:

- a) That the above work is -
Construction and maintenance of road & CD work T02 Suresh Paswan house to Paswan tol road
- b) That with effect from 18th July 2022, the GST rate on works contract has been increased from 12% to 18% vide notification no. 03/2022 - Central Tax (Rate) dated 13.07.2022, hence for payment made after 18/07/2022 GST @ 18% is payable.
- c) The impact is being given from RA Bill 03 to RA Bill 06.
- d) The GST claim as submitted by contractor is Rs.2,18,989/- while as per our calculation it is Rs.2,18,988/- which results in savings of Rs.1/-
- e) That we have verified the deposit of tax from the GST returns and hence, we recommend the payment.

Therefore, kindly do the needful in this regard.

For and on behalf of
SKKSS & Co.

[Signature]
03/07/22



Authorized Signatory

Enclosed: -

- 1) GST claim computation

CAR, YAPUR GOLA ROAD,
NALA ROAD, PATNA - 800004

[Signature]
31/11/22
Executive Engineer
R.W.D. Works Division
Madhubani

[Signature]
Devi KUMAR Singh.